

Write your name here

Surname

Other names

**Pearson Edexcel
International GCSE**

Centre Number

--	--	--	--	--

Candidate Number

--	--	--	--

Hindi
Paper 1

Thursday 24 May 2018 – Morning
Time: 3 hours

Paper Reference

4HN0/01

You do not need any other materials.

Total Marks

Instructions

- Use **black** ink or ball-point pen.
- **Fill in the boxes** at the top of this page with your name, centre number and candidate number.
- Answer **all** questions.
- Answer the questions in the spaces provided – *there may be more space than you need.*
- You must **not** use a dictionary.

Information

- The total mark for this paper is 100.
- The marks for **each** question are shown in brackets – *use this as a guide as to how much time to spend on each question.*

Advice

- Read each question carefully before you start to answer it.
- Keep an eye on the time.
- Try to answer every question.
- Check your answers if you have time at the end.

P53362A

©2018 Pearson Education Ltd.

1/1/1/



Turn over ►



Pearson

1. Translate the following sentences **into Hindi**.

(a) Human beings are the best creation of nature.

(2)

(b) What is the solution for this problem?

(2)

(c) *Soorsagar* is the most important writing in *Soordas's* poetry.

(2)

(d) If Suman is unsuccessful in her examinations she cannot go to college.

(2)

(e) Since Rohit has started a new business he is making a lot of money.

(2)

(5 additional marks are available for the quality of Hindi in your answers)

(Total for Question 1 = 15 marks)



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

2. Translate the following passage **into Hindi**.

These days a lot of youngsters do not want to live with their parents after completing their university education. What are the causes and how can we resolve this social issue?

There are many reasons behind this but I think the most important one is the generation gap, which is inevitable. Today's young people are very ambitious and they want to live in a modernised way. They want big houses, big cars and a big bank balance. Can the traditional small houses cater for their needs? It is a fact that old houses were constructed to meet the needs of previous generations but modern society's requirements have changed.

People's attitude has changed, while both generations consider it better to live apart and there seem to be no meeting ground between them. The senior generation has a deep love for their homes they have built while younger generation does not find attraction in these buildings. As young people complete their university education, many find themselves independent and free from any interference from parents. They value their independence more than their association with parents.

Another major factor is the preference, it all depends how an individual chooses to live. Some senior people love to represent cultural and social values of their own times. But some youngsters are of the view that their parents have orthodox ideology. These reasons are drifting both generations apart and understanding each other's perspectives on how to live together can be a solution to this problem.

(25)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

Blank writing area with horizontal dotted lines.



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

Handwriting practice area with 18 horizontal dotted lines.



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

(Total for Question 2 = 25 marks)



3. Translate the following passage into English.

खाने-पीने के विषय को लेकर आयुर्वेद में बहुत सी बातें बताई गई हैं, जिन्हें मानने से व्यक्ति बहुत से रोगों से दूर रह कर हमेशा स्वस्थ जीवन जी सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको कभी भी कोई फल नहीं खाना चाहिए। खाने के तुरंत बाद फल खाने से अम्लता बढ़ जाती है और पेट गैस की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद चाय अथवा कॉफी पीने की आदत होती है, इससे भी पेट में अम्लता बढ़ती है।

अधिकतर लोग खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी या कोई और शीतल पेय लेते हैं। भारी खाना खाने के तुरंत बाद शीतल पेय पीना पेट की कई बीमारियों को जन्म देता है और इससे आहार का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। खाना खाते समय गुनगुना पानी पीने की आदत आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। चिकनाई वाले तले खाद्य पदार्थ, मक्खन, मेवा तथा मिठाई खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपको खांसी हो सकती है, जबकि गरम खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से जुकाम हो जाने की संभावना बढ़ जाती है।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप और क्या कर सकते हैं? रात को भोजन करने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाने का पाचन ठीक से नहीं हो पाता।

मेरे दादा जी कहते हैं कि, “रात को खाना खाने के बाद सैर करने जाना चाहिए।”

यदि आप अपने जीवन में इन नियमों का पालन करें, तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे।

(25)



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

Blank writing area with horizontal dotted lines.



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

Handwriting practice area with 18 horizontal dotted lines.



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

(Total for Question 3 = 25 marks)



4. Write an essay of up to **250** words **in Hindi** on **one** of the following topics:

Either

(a) Imagine you were the leader of your local community. What will you change in your area?

कल्पना कीजिए कि आप अपने स्थानीय समुदाय के नेता हैं। आप अपने क्षेत्र में क्या परिवर्तन करेंगे/करेंगी ?

(b) How much work should students be doing to help around the house?

छात्रों को घर के कार्य में कितनी मदद करनी चाहिए ?

(c) Describe the gap between rich and poor in your country.

अपने देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई का वर्णन करें।

Or

(d) These days the media is not playing a responsible role. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

आजकल मीडिया ज़िम्मेदारी की भूमिका नहीं निभा रहा है। आप इस विचार से किस हद तक सहमत या असहमत हैं ?

(35)

Instructions to candidates:

**Indicate which question you are answering by marking the box (☒).
If you change your mind, put a line through the box (☒)
and then indicate your new question with a cross (☒).**

Chosen question number:

Question 4(a)

Question 4(b)

Question 4(c)

Question 4(d)

Please turn over for answer space.



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

Handwriting practice area with 18 horizontal dotted lines.



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

Handwriting practice area with 18 horizontal dotted lines.



DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

(Total for Question 4 = 35 marks)

TOTAL FOR PAPER = 100 MARKS

